



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1944 (श10)
(सं0 पटना 1085) पटना, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
3 दिसम्बर, 2022

सं० एल/एच०जी०-14-08/2022-13650—बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में जिला समादेष्टा पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन लेवल-9 (अनुमान्य भत्तों के साथ) में औपबंधिक रूप से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के रूप में उनके योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	नाम	पिता का नाम/स्थायी पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आवंटित आरक्षण कोटि
1	श्री अमित कुमार	श्री राजाराम पासवान स्थायी पता:- ग्राम-देशना, पोस्ट ऑफिस-देशना, थाना-अस्थावां, जिला-नालंदा (बिहार), पिन कोड-803107	नालंदा	388	02 (अनुसूचित जाति)

(i) उपर्युक्त नवनियुक्त जिला समादेष्टा की परीक्ष्यमान अवधि 3 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(ii) उपर्युक्त नवनियुक्त जिला समादेष्टा का वेतन भुगतान, इनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र के सत्यापन के उपरांत प्रारंभ होगा।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में संबंधित बोर्ड/संस्था/प्राधिकार से यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो इन नव नियुक्त जिला समादेष्टा की नियुक्ति/सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जा सकती है एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(iv) उपर्युक्त नवनियुक्त जिला समादेष्टा, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, छज्जुबाग, पटना के समक्ष समर्पित करेंगे।

(v) अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, वांछित प्रमाण पत्र/कागजात यदि समर्पित नहीं किये गये हैं, तो परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय वांछित प्रमाण पत्र महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष निश्चित रूप से समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(vi) अभ्यर्थी योगदान/प्रभार ग्रहण के समय हाल का पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटोग्राफ/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र/चल-अचल संपत्ति विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(vii) महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना, नवनियुक्त जिला समादेष्टा से कंडिका (v) एवं (vi) में अंकित कागजात/फोटो आदि प्राप्त करने के उपरान्त उनका योगदान स्वीकार करेंगे एवं उसकी एक-एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा उनके प्रशिक्षण हेतु अपने स्तर से शीघ्र कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1085-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>